

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2019/अग्रहायण 22, 1941 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 321
No. 346] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019/AGRAHAYANA 22, 1941 [N.C.T.D. No. 321

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सं. 53/2018-राज्य कर

सं. फा. 3(47)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डी.एस. VI/610.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।
- (2) ये 23 अक्तूबर, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा और 23 अक्तूबर, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर प्रदायकर्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग की, दिल्ली के

राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं. फा.3(42)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डी.एस.-VII/746 तारीख 23 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017-राज्य कर, तारीख 23 नवम्बर, 2017 या दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं. फा.3(57)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डी.एस.-VII/763 तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017-राज्य कर (दर), तारीख 27 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है।”।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
ए.के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

टिप्पण : मूल नियम, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं. फा.3(10)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डी.एस.-VII/342 तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 3/2017-राज्य कर, तारीख 22 जून, 2017 प्रकाशित किए गए थे और सं. फा.3(20)/वित्त (राजस्व-1)/2019-20/डी.एस.-VI/415, तारीख 6 सितम्बर, 2019, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 49/2018-राज्य कर, तारीख 6 सितम्बर, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2019

No. 53/2018-State Tax

No. F.3(47)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/610.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 23rd October, 2017.
2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 23rd October, 2017, namely:-

“(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Finance, notification No. 48/2017-State Tax, dated the 23rd November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(42)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/746 dated the 23rd November, 2017 or notification No. 40/2017-State Tax (Rate) dated the 27th November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary Part IV, vide No. F.3(57)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/763 dated the 27th November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in

the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1321(E), dated the 23rd October, 2017 or notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1299 (E) dated the 13th October, 2017.”

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification dated the 22nd June, 2017, published *vide* No.F.3(10)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended *vide* notification No. 49/2018-State Tax, dated the 6th September, 2019, published *vide* F.3(20)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/415, dated the 6th September, 2019.